



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042024-253879
CG-DL-E-26042024-253879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946

No. 289]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

फा.सं. 18-15/15046.—आईएनसी:—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, एचपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, तवक्कल बिल्डिंग, कडु सोनप्पनहल्ली, हेनूर बगलूर मेन रोड, बैंगलोर, जिला बैंगलोर-562149 (कर्नाटक) कर्नाटक राज्य सरकार तथा कर्नाटक उपचर्या परिषद् द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा संख्या 105, पहली मंजिल, विकास सौधा, बेंगलुरु-560001, कर्नाटक को संबोधित नोटिस संख्या 18-15/15046-आईएनसी दिनांक 17.02.2023 को जारी किया गया था। दिनांक 17.02.2023 को जारी नोटिस की एक प्रति एचपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, तवक्कल बिल्डिंग, कडु सोनप्पनहल्ली, हेनूर बगलूर मेन रोड, बैंगलोर, जिला बैंगलोर-562149 (कर्नाटक) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, एचपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी एचपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 25.10.2022 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 29.11.2023 से एचपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, तवक्कल बिल्डिंग, कडु सोनप्पनहल्ली, हेनूर बगलूर मेन रोड, बैंगलोर, जिला बैंगलोर-562149 (कर्नाटक) से जीएनएम मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति कर्नाटक राज्य सरकार के आदेशों के अध्याधीन केवल कर्नाटक राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./058/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 25th April 2024

F.No. 18-02/15072-INC,— F.No. 18-15/15046-INC:— In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:— Whereas, **HPR institute of Nursing Sciences** situated at **Tawakkal Building, Kadu Sonnappanahalli, Hennur Bagalur Main Road, Bangalore Distt. Bangalore 562149, Karnataka** is recognized by State Government of Karnataka and Karnataka Nursing Council to conduct **GNM** course.

Whereas, a notice no. 18-15/15046-INC dated 17/02/2023 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Room No. 105, 01st Floor, Vikas Souda, Bangalore – 560001, Karnataka was issued. Copy of the notice dated 17/02/2023 was also enclosed **HPR institute of Nursing Sciences** situated at **Tawakkal Building, Kadu Sonnappanahalli, Hennur Bagalur Main Road, Bangalore Distt. Bangalore 562149, Karnataka**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **HPR institute of Nursing Sciences**. Even the institution **HPR institute of Nursing Sciences** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 25/10/2022 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 29/11/2023 any person holding a recognized qualification of **GNM** from **HPR institute of Nursing Sciences** situated at **Tawakkal Building, Kadu Sonnappanahalli, Hennur Bagalur Main Road, Bangalore Distt. Bangalore 562149, Karnataka** shall be entitled to be registered only in the State of **Karnataka** subject to the orders of State government of Karnataka

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./058/2024-25]